

अमर उजाला

पतंजलि योगपीठ पहुंची ईट राइट इंडिया यात्रा

16 Jan 2019

ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार

केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से खाद्य सुरक्षा को लेकर देशभर में ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित साइकिल रैली बुधवार की शाम पतंजलि योगपीठ पहुंची। इस दौरान स्वागत समारोह में स्वामी रामदेव ने पतंजलि का डबल फोर्टिफाइड नमक भी लांच किया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि मनुष्य में रोगों के दो मुख्य कारण हैं। इनमें पहला कारण आनुवांशिक और दूसरा शरीर में विजातीय या विकारी तत्वों का एकत्र होना या किसी भी कारण से आवश्यक तत्वों का शरीर से बाहर निकलना है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कंपनियों का ध्यान अपने उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा बेचने पर है। आहार के नाम पर लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पतंजलि योगपीठ देशवासियों को स्वस्थ और स्वदेशी खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने खाद्य उत्पाद में फोटोफिकेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की ओर से उठाया गया सराहनीय कदम बताया। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि अमेरिका में 96 प्रतिशत फूड प्रोसेस होता है, जबकि भारत में मात्र 6 से 8 प्रतिशत ही फूड प्रोसेस होता है। कहा कि, देश में शुरू किए 60 मेगा फूड पार्कों में से केवल पतंजलि फूड पार्क का ही सफल संचालन हो रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. प्रेमलाल ने कहा कि पतंजलि का यह अभिनव प्रयोग देश में एनिमिया रोग को समाप्त कर देगा। गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को विकसित करने में भी आयरन एक महत्वपूर्ण तत्व है। नमक में आयरन का यह प्रयोग सराहनीय है। जिलाधिकारी दीपक रावत ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता, स्मार्टफोन रखने से कोई स्मार्ट नहीं होता किंतु अस्वस्थ भोजन करने से मनुष्य अस्वस्थ जरूर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खाद्य पदार्थ की हमारी परंपरा को केवल स्वामी रामदेव ही प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अवसर पर एफएसएसएआई के सहायक निदेशक अभिषेक लाल ने कहा कि स्वस्थ भारत यात्रा की शुरुआत पिछले साल 16 अक्टूबर को लेह से हुई थी। यात्रा आगामी 27 जनवरी को दिल्ली में संपन्न होगी। यात्रा के साइक्लिंग टीम के प्रभारी आशीष ठाकुर ने यात्रा के उद्देश्यों के बारे में बताया। इससे पूर्व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने यात्रा को देवपुरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।